### SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Mob.: 9315202833, Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in Website: www.shreeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

September 04, 2021

To,

<b>Department of Corporate Relations</b>	Metropolitan Stock Exchange of India Limited (Formerly known as MCX Stock Exchange Limited)		
BSE Limited			
P. J. Towers, Dalal Street	4 <sup>th</sup> Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East,		
Mumbai-400 001	Mumbai – 400 098		
Scrip Code: 541358	Symbol: SHWL		

Subject: Newspaper advertisement of Notice of AGM

Dear Sir,

With reference to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of notice of AGM published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Saturday, September 04, 2021.

We request you to kindly take the above information on record

**NEW DEL** 

Thanking You,

For Shree Worstex Limited

Kiran Mittal

Director DIN: 00749457

**Encl. Copy of Advertisement** 

**FINANCIAL EXPRESS** 

Date: 03.09.2021

Place: New Delhi

## SHREE WORSTEX LIMITED

CIN: L17111DL1982PLC013790 Regd. Office: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Ph: 9315202833 | Email ID: shreeworstex@gmail.com | Website: www.shreeworstex.ir

#### NOTICE 38™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the members of M/s Shree Worstex Limited will be held on Thursday, 30th September, 2021, at 01:00 P.M. at . 325, Illrd Floor, , Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e August 27, 2021, and completion of dispatched on dated September 03, 2021. Notice is available on the website of the Company (www.shreeworstex.in). The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www. shreeworstex.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, 27th September, 2021 from 9:00 a.m. and end on Wednesday 29" September ,2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date (Record date), i.e., Thursday. September 23, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Skyline Financial Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form.

BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to section 91 of the Act and the Rules framed there under, the Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24.09.2021 to 30.09.2021 (both days inclusive) for the purpose of 38th AGM. By the order of Board of Directors of

For Shree Worstex Limited

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

## **PUBLIC ANNOUNCEMENT**



## **ESDS SOFTWARE SOLUTION LIMITED**

dated August 18, 2005, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (the "RoC"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed in the extra-ordinary general meeting of the Shareholders held on June 30, 2021, and consequently the name of our Company was changed to ESDS Software Solution Limited pursuant to a certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company issued by the RoC on July 8, 2021. For details relating to the changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 155 of the draft red herring prospectus dated September

Corporate Office: Plot No. Gen 71/1 & 71/1/1, T.T.C Industrial Area, M.I.D.C., Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India; Tel: 1800 209 3006 Contact Person: Aniket Khandelwal, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: 1800 209 3006; E-mail: secretarial@esds.co.in; Website: www.esds.co.in Corporate Identity Number: U72200MH2005PLC155433

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [...] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF ESDS SOFTWARE SOLUTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION ("OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [◆] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 3,220.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 21,525,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION COMPRISING OF UP TO 4,231,000 EQUITY SHARES BY GEF ESDS PARTNERS, LLC AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION, UP TO 16,860,000 EQUITY SHARES BY SOUTH ASIA GROWTH FUND II, L.P. AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 34,000 EQUITY SHARES BY SOUTH ASIA EBT TRUST (ACTING THROUGH ITS TRUSTEE, ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED) AGGREGATING UP TO ₹ [ • ] MILLION (COLLECTIVELY, THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") AND OF UP TO 400,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY SARLA PRAKASHCHANDRA SOMANI (THE "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDER" AND TOGETHER WITH THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS") (THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [.]% OF OUR

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES THROUGH A RIGHTS ISSUE TO EXISTING SHAREHOLDERS, PRIVATE PLACEMENT, PREFERENTIAL OFFER OR ANY OTHER METHOD AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW TO ANY PERSON(S). AGGREGATING UP TO ₹ 600.00 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE OFFER

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [◆] EDITIONS OF [◆] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [◆] EDITIONS OF [◆] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI DAILY NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs(s) and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank, as the case may be, Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure"

to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on September 3, 2021.

the date of filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the respective BRLMs, i.e. Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com. Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI on September 3, 2021 with respect to disclosures made therein. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company on or before 5:00 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 28 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 155 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited.

For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed for by them see

**BOOK RUNNING LEAD MANAGERS** 



## Axis Capital Limited

1" Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg Worli, Mumbai- 400 025 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4325 2183

E-mail: esds.ipo@axiscap.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in

Contact Person: Sagar Jatakiya SEBI Registration No.: INM000012029

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: Nashik

Date : September 3, 2021 Company Secretary and Compliance Officer

Contact Person: Devendra Maydeo/Dhruv Bhagwat

ESDS SOFTWARE SOLUTION LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on September 3, 2021. The DRHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, stock exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, respectively and is available at the respective websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and IFL Securities Limited at www.iiflcap.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States. and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

#### K G DENIM LIMITED CIN: L17115TZ1992PLC003798

Regd. Office: Then Thirumalai, Jadayampalayam, Coimbatore -641 302.

Phone: 04254-235240, Fax: 04254-235400 Website: www.kgdenim.com, E-mail: cskgdl@kgdenim.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of KG Denim Limited will be held on Monday, September 27, 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), ir compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with General Circular No.14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020. General Circular No.20/2020 dated 5th May 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs to transact the business provided in the Notice of 29<sup>th</sup> AGM of the Company (AGM Notice). Details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the 29<sup>th</sup> AGM are provided in the AGM Notice. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2021 to 27th September, 2021 (both days

The Company will be sending the 29th AGM Notice along with Annual Report electronically to those members who have registered their email IDs with the Company / Depository Participants and/or the Company's Registrar and Share Transfer Agent in compliance with MCA Circulars. Members holding equity shares in physical form who have not registered their email ID may get the same registered with Company / RTA. Members participating through the VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Notice of the 29<sup>th</sup> AGM and Annual Report will be made available on the website of the Company i.e www.kadenim.com.

The Company is providing a facility of voting through electronic means i.e. remote e-voting and evoting at the AGM to be held through VC/OVAM, to vote on the business set out in the AGM Notice. Detailed instructions for attending the meeting through VC/OVAM or casting vote by remote e-voting or e-voting at the AGM is provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email ID can procure User ID and password by following the instructions provided in the AGM Notice.

Place: Coimbatore Date: 03.09.2021

By order of the Board KG BAALAKRISHNAN Executive Chairman DIN:00002174

#### UNITED DRILLING TOOLS LIMITED CIN: L29199DL1985PLC015796

Reg. Office: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22 K G Marg, New Delhi-110001 Corporate Office: A-22, Phase-II, Noida - 201305 E-mail: compsect@udtltd.com Website: www.udtltd.com Phone: +91- 0120- 2462673, 0120-4842400 Fax: +91-0120-2462675

NOTICE OF 39TH AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ('AGM') of the

- Members of United Drilling Tools Limited ('Company') will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11.30 a.m. IST through Video Conferencing ('VC') Other Audio Video Means ('OAVM') without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circulars and SEBI Circular, The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose
- of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's website i.e: www.udtltd.com. Pursuant to the SEBI circular the requirement of sending physical copylies of the Annual Report for FY 2020-21 is dispensed. The dispatch of Notice of AGM has been completed on September 03, 2020
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as or the cut-off date of September 21, 2021 may cast their vote through remote e-Voting as well as e-Voting at AGM on the Ordinary and Special Business as set out i
- The business as set forth in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means in the form of e-voting. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 25, 2021 (10.00 a.m. 1ST) and end on Monday, September 27, 2021 (05.00 p. m. 1ST). The remote e-Voting facility shall be disabled by CDSL thereafter and once the vote on a resolution is cast by a member, the member
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Monday September 21, 2021, only shall be entitled to vote through remote e-voting/e-
- Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on the cut off date may obtain the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or maheshcp@alankit.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.udtltd.com and also on Stock Exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.
- 0. The results of the e-voting along with the Scrutinizers' Report shall be placed or the Company's website www.udtltd.com and the Company shall simultaneously forward the results to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the equity shares of the Company are listed.

## BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, the 21st day of September, 2021 to Tuesday, the 28th day of September, 2021 (both days inclusive).

For United Drilling Tools Limited

Place: Noida Date: 03.09.2021

Tarun Chhabra Company Secretary

#### Œ **CENTURY EXTRUSIONS LIMITED** CIN: L27203WB1988PLC043705

Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata- 700016 Website: www.centuryextrusions.com E-mail: secretary@centuryextrusions.com

#### NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

of the Members of the Company will be convened on Monday, the 27th day of September, 2021 at 11:00 A.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020 and No. 02/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, as amended by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members

Notice is hereby given that the Thirty Third (33rd) Annual General Meeting

- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st day
- of September, 2021 to 27th day of September, 2021, (both days inclusive). The Notice of the 33rd AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2021 ("Annual Report") has been sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 33rd AGM Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 20th day of September, 2021 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 33rd AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 33rd AGM of the company has been uploaded on the website of the company, viz, www.centuryextrusions.com. The notice can also be accessed from the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and, Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at www.bseindia.com respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing the remote electronic voting at www.evotingindia.com.
- The remote e-voting period begins on 24th September, 2021 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 26th September, 2021 at 5:00 P.M. (IST) During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2021 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it
- Any person who acquire shares and becomes Members of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. Or rta@cbmsl.com.
- Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile no. at secretary@centuryextrusions.com till 4 p.m. (IST) on Saturday 25th September, 2021. Members who would like to ask question during the 33rd AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their request preferably along with their question mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile no. to the company's email address at secretary@centuryextrusions.com till 4 p.m. (IST) on Saturday 25th September, 2020.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, or call 1800225533.

of all the members of the company and is in compliance with the MCA Circulars

The afore-mentioned information in being issued for the information and benefit

Company Secretary

[記] JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY


NOTICE INVITING EOI

## NIB No.: 05 / 2021-22

Online EOI is invited up-to 5.00 PM of 27.09.2021 for 'Supply, Installation Operation and maintenence of Charging Stations for Electric Vehicle at Jaipur." Details may be seen in the EOI Document at our office or the website of State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in & www.jda.urban.rajasthan.gov.in To participate in the EOI, bidder has to be:

- for participating in the EOI, the Bidder has to apply for the EOI and pay the EOI Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only. 2. Registered on e-Procurement Portal of Government of
- Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online EOI submission.

Raj. Samwad/C/5597/2021-22 JDA, Jaipur



Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058 Ph: +91 7595046813,

NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 12.30 P.M. through video conferencing (VC) /other audio visual means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which will be emailed to the members separately. In Compliance with the applicable provisions of the Companies Act,

2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and January 13, 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated 12th May, 2020 and January 15, 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") collectively referred to as "relevant circulars" without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2021 will be sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/ Depositories. Members may note that the notice of the AGM and Annual Report for the year ended 31st March, 2021 will also be available on the Company website www.ntcind.com and on the BSE website www.bseindia.com and www.cse-india.com Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM

only. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting)

to all its members holding shares as on the cut-off date, Wednesday,

22nd September, 2021 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The detailed manner of remote e-voting /e-voting during the AGM for the members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notice of the AGM. In case any members has not registered the email address and /or not

Participants, please follow the below instructions to: Register your email address to receive the Notice of the AGM. Annual Report for the year ended 31st March, 2021 and the login

updated the bank account details with the Company /Depository

credentials for e-voting; b) Update your bank account details Members holding Please contact Niche Technology Pvt Ltd,

shares in PHYSICAL form

shares in

**DEMAT** form

Place: Kolkata

email address and /or bank account details. Members holding Please contact your Depository Participant (DP) to register your email address and/or bank account details in your DEMAT account, as per the process advised by your DP.

Registrar and shares Transfer agent of the

Company nichetechpl@nichetechpl.com and

submit the necessary documents to register your

The Board has not recommended any dividend for the year ended 31st March, 2021 for approval by the members at the AGM. However, members are requested to update their bank details in any case, so that the information can be used for future dividend payment as and

For ntc industries Limited

Sunil Kumar Varma Company Secretary

### **CREMICA AGRO FOODS LIMITED** Regd. Off.: 455, SOHAN PALACE, 2nd FLOOR, THE MALL

LUDHIANA, PUNJAB-141001, Tel No.: 01826-222826 CIN: L15146PB1989PLC009676 Email Id: manager.cafl@gmail.com, Website: www.cafl.co.in

INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING.

NOTICE OF BOOK CLOSURE Shareholders are hereby informed that the 32" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held in compliance with applicable provisions of the Act on Monday, 27th September, 2021, at

11:00 A.M. through video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as mentioned in the Notice of AGM which will be sent to the shareholders for convening the AGM of the In the view of ongoing COVID-19 pandemic and difficulties involved in dispatch of physical copies of the Notice of the AGM and the Annual

Report, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide general circular no 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and 15th January 2021 ('SEBI Circular'), have permitted the Companies to conduct the AGM through VC in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 ('The Act') & the rules framed thereunder and the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Shareholders will be able to attend the AGM of the Company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of

In compliance with the above provisions and circulars, the Notice of the 32" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-2021 along with the login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting will be sent to all the shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company or Share Transfer Agent or witht heir respective Depository Participants(DP)

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of he Company at www.cafl.co.in and the stock exchange where the equishares of the Company is listed i.e www.msei.in (Metropolitan Stock

Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/RTA, can register their email address for receipt of notice of 32" AGM, Annual Report and login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting by sending a request to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. delhi@linkintime.co.in along with scanned copy of request letter providing their name, folio no, email address, scanned copy of share certificate(front and back), self attested copy of PAN and Aadhar card.

Manner of registering/updating email addresses:

A) Those Shareholders who are holding equity shares in dematerialized /physical mode and have not yet registered/updated their email addresses with the Company/RTA, may temporarily register the same by sending their KYC documents such as Aadhar, Pan to Company Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') i.e M/s Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in.lt is hereby clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant(s) and follow the process advised by DP.

B) Those shareholders who are holding shares in physical mode and

have not registered/updated their email addresses and/or Bank details may register the same with the Company's Registrar and Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited by sending an email to M/s Link Intime India Private Limited

Manner of casting vote through e-voting: The Company will be providing remote e-voting facility to all its

shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM and the facility of voting through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of M/s Link Intime India Private Limited, who is also the RTA to facilitate e-voting and conducting the AGM through VC. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and the e-voting during the AGM shall be provided in the notice of the AGM.

The details will also be available on the website of the Company at www.cafl.co.in.

Shantilal Sukalal Chaudhary

For Cremica Agro Foods Limited

financialexp.epap.in

REGISTERED OFFICE: BIKANER BUILDING, MEZZANINE FLOOR, ROOM NO - 4. 8/1, LAL BAZAR STREET, KOLKATA - 700001 PHONE: +91 93310 32756; E-MAIL: COLAMACOMMERCIAL@GMAIL.COM WEBSITE: WWW.COLAMACOMMERCIAL.IN NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, September 28, 2021, at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at

COLAMA COMMERCIAL CO. LTD.

CIN: L51109WB1983PLC035719

Bikaner Building, Mezzanine Floor, Room No - 4, 8/1, Lal Bazar Street, Kolkata - 700001, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM sent along with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2021, and the Board's Report and Dispatch of the Annual Report, 2021, along with the AGM Notice, Attendance Slip and Proxy

Form, have been completed on September 3, 2021. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), i.e. www.evotingindia.com. Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The company has engaged CDSL for providing evoting facility. The details of remote e-voting are given below: The remote e-voting will commence on Saturday, September 25, 2021 from 9.00 A.M. and

ends on Monday, September 27, 2021 till 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after September 25,

The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 21, 2021.

Notice of AGM has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as on August 20, 2021. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after August 20, 2021, and holding shares as on the cut-off date i.e. August 20, 2021, may obtain the Login ID and Password by sending a request at colamacommercial@gmail.com, or call at. Tel: +91 93310 32756 Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. The facility of casting vote through ballot paper will be made available at the AGM and the

eligible members attending the AGM shall be able to cast their vote at AGM through ballot

The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked

Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani, CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400001, at email: helpdesk.evoting@cdslindia.com in. Telephone No.: 022-22725040. NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive). For Colama Commercial Co Ltd

> (RAJESH PRAJAPATI) Wholetime Director (DIN - 08251452)

Place: Kolkata

Date: 03-09-2021

## Our Company was incorporated as ESDS Software Solution Private Limited as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation

Registered Office: Plot No. B- 24 & 25, NICE Area, MIDC, Satpur, Nashik - 422 007, Maharashtra, India; Tel: +91 253 6636 500

**OUR PROMOTER: PIYUSH PRAKASHCHANDRA SOMANI** 

COMPLYING WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. This Offer is being made through the Book Building Process in

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the

# "Capital Structure" on page 74 of the DRHP.

# IIFL SECURITIES

**IIFL Securities Limited** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai- 400 013 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4646 4600 E-mail: esds.ipo@iiflcap.com Investor Grievance E-mail: ig.ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com

SEBI Registration No.: INM000010940

## **LINK**Intime Link Intime India Private Limited

REGISTRAR TO THE OFFER

C101, 247 Park

L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4918 6200 E-mail: esds.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance Email: esds.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

> For ESDS SOFTWARE SOLUTION LIMITED On behalf of the Board of Directors

and the SEBI Circular. For Century Extrusions Limited Place: Kolkata Rohit Kumar Date: 03-09-2021

New Delhi

Place: Ludhiana

Date: 04.09.2021

(CEO & Director)

No.: JDA / XEN / Elect-II / 2021-22 / D-525

Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in

UBN No. JDA2122WSOB00268

Executive Engineer (Elect-II) ntc industries limited

e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com CIN: L70109WB1991PLC053562

आम सूचना सर्व साधारण को सचित किया जाता है की मकान वाके बांठिया चौक, बीकानेर, राजस्थान, के मालिक श्री नर्सिंह दास पुत्र श्री जवाहर मल तुसनियाल थे जिनके नाम न्यायालय सिविल जजी बीकानेर से दिनांक 28.05.1955 को उक्त सम्पति का नीलामी सर्टिफिकेट जारी हो रखा है। उक्त मकान के उतर की तरफ रास्ता, दक्षिण की तरफ मकान बंशी लाल कोठारी हाल मकान मांगीलाल बांठिया व कालू राम बांठिया, पूर्व की तरफ मकान रिखब चंद बांठिया व पश्चिम की तरफ सड़क है। उक्त मकान 448|||=|| दर गज का है। श्री नर्सिंह दास के स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में उपरोक्त मकान के मालिक उनके निम्नांकित विधिक उतराधिकारी, गोपी देवी तुसनियाल, किरण तुसनियाल, शेखर तुसनियाल, प्रियंका तुसनियाल, रमेश कुमार तुसनियाल, श्यामा डागा, राज कँवर तुसनियाल, प्रदीप तुसनियाल, संदीप तुसनियाल, सशीला देवी बागड़ी, सुषमा मोहता, मेघराज तसनियाल. ब्रिज रतन तुसनियाल, लक्खन लाल मल्ल, भरत कुमार मल्ल, अशोक कुमार मल्ल, लक्ष्मी देवी दमानी, बिना देवी चांडक व मनीषा पेडीवाल है, जिनके द्वारा उपरोक्त मकान को विक्रय किया जाना है। जिसमें उपरोक्त के अलावा किसी भी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति । उपरोक्त मकान के बाबत अपना हिस्सा या मालिकाना हक क्लेम करता है तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में सम्पर्क करें। बाद गुजरने 7 दिवस किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

### "IMPORTANT"

धर्मनगर द्वार, नया शहर, बीकानेर, मो. 9529242759

एडवोकेट महीधर नारायण पुरोहित

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

### SHREE WORSTEX LIMITED

CIN: L17111DL1982PLC013790 Regd. Office: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Ph: 9315202833 | Email ID: shreeworstex@gmail.com | Website: www.shreeworstex.in

#### NOTICE 38<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the members of M/s Shree Worstex Limited will be held on Thursday, 30" September, 2021, at 01:00 P.M. at . 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e August 27, 2021, and completion of dispatched on dated September 03, 2021. Notice is available on the website of the Company (www.shreeworstex.in)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www. shreeworstex.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, 27th September, 2021 from 9:00 a.m. and end on Wednesday 29th September ,2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date (Record date), i.e., Thursday, September 23, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Skyline Financial Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form.

BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to section 91 of the Act and the Rules framed there under, the Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24.09.2021 to 30.09.2021 (both days inclusive) for the purpose of 38th AGM. By the order of Board of Directors of

> Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

For Shree Worstex Limited

Place: New Delhi

Date: 03.09.2021

## (Distric Global Advisory Integrated Capital Services Limited

Date: 03.09.2021

Place: New Delhi

CIN: L74899DL1993PLC051981 Regd. Office: 606, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

PUBLIC NOTICE OF CONVENING

## 28™ ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Notice is hereby given that in view of the COVID-19 pandemic, Twenty-Eight (28") Annual General Meeting ("AGM") of the members of Integrated Capital Services Limited(" Company") will be held on Thursday, 30" day of September, 2021 at 10:00 am (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") ("Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 15, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFDF/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities & Exchange Board of India.

In Compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the year 2020-21 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the Company/ Depository Participant(s). No physical copies of the Notice and the Annual Report would be sent to any member. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at www.raas.co.in and on the website of the Stock Exchange, i.e BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for

registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2020-21.

Physical Holding	Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email addres writing to Link In Time India Private Limited ("the RTA") at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 or email at delhilinkintime.co.in alo the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Memberattested copy of Aadhar and copy of share certificate (front and back).	
Demat Holding	Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email address by following the process mentioned above for- Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID place of Folio No along with scanned copy of self attested Client Master copy or consolidated Der Account Statement.	


Members can join and participate in the 28" AGM through VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the 28" AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 28" AGM shall be provided in the Notice of 28" AGM. The notice shall also contain the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query/difficulty, a member may send an email to the RTA at delhilinkintime.co.in or Company at contact@raas.co.in. For Integrated Capital Services Limited

Dated: 04" September, 2021 Lakshay Prakash

Place: New Delhi. Company Secretary & Compliance Officer



## नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-48702000

एतदृहारा सुचना दी जाती है कि मैससं पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) एजीएम सुचना में निर्धारित अनुसार व्यापार को पुरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) पर आयोजित की जाएगी। कंपनी ने अनुमत विधि हारा 02 सितंबर, 2021 को एजीएम की सुचना भेजने का कार्य पुरा कर लिया है। यह वार्षिक सामान्य बैठक कॉपोरेंट मामलों के मंत्रालय हारा जारी सामान्य परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित पूर्व सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और सेबी द्वारा जारी सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित पूर्व परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रोंसंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से बुलाई गई है। नोटिस में तय किए गए आगामी एजीएम में पूरा किए जाने वाले विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा ई-वोटिंग की सूचना

कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय समय पर संशोधित, के नियम 20 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियं के सुचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों की अनुपालना में सदस्यों को एतदहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि हारा 37वीं एजीएम पर वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सविधा प्रदान कर रही है और व्यापार सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इ-वोटिंग सविधा के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश एजीएम सुचना में दिए गए है। सदस्यों से निम्नलिखित नोट करने का अनुरोध है:

में दोबारा वोट के प्रयोग के लिए शामिल नहीं किया जाएगा

क. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 26 सितंबर, 2021 को प्रातः 9.00 वजे (आईएसटी) शुरू होगी और मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को सायः 5.00 (आइएसटी) बंद होगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल को कथित तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा असक्षम कर दिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट इ-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सदस्यों को वोटिंग अधिकार (ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग) बुधवार, 22 सितंबर, 2021 ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी की भूगतान इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में कर सकेंगे। कट-ऑफ तिथि (कार्यालय समय के समापन) को सदस्य को केवल रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के हकदारी में शामिल किया जाएगा और वह एजीएम में उपस्थित हो सकता है।

ग. कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि को

शेयरधारक है वह कंपनी के आरटीए मैं. अलंकित असाइनमेंट्स लि., 1-इ/13, इंडिवाला एक्स्ट., नई दिल्ली-110055 (भारत) फोन नं. 011-42541959, ईमेल आईडी ramap@alankit.com या कंपनी को ईमेल आईडी investor.redressal@paulmerchants.net पर अनुरोध भेजने हारा लॉग इन आईडी व अनुक्रम सं. प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि के अनुसार डीमैट मोड में शेयर रखते हैं, ई-वोटिंग से संबंधित निदेशों के लिए और एजीएम में भाग लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net या सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देखने का अनुरोध किया जाता है। एजीएम में लॉगिन आईडी, पासवर्ड प्रमाणीकरण और रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग का प्रयोग करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही एजीएम की सुचना के नोट्स में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे देखें।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने बोट का पहले प्रयोग नहीं किया है वह एजीएस के दौरान अपनी सहमति या असहमति पर बोट के अधिकार का प्रयोग करने के सक्षम होंगें। इ. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकता है परंतु एजीएम

37वी एजीएम की सुचना से युक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया है और वैचलिंव http://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2021/09/PML-Annual-Report-2020-21.pdf के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 37वीं एजीएम की सुचना प्रदर्शित कर दी गई है और इसे कंपनी की वेबसाइट से वेबलिक http://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2021/09/PML-NOTICE-AGM.pdf के तहत डाउनलोड किया जा सकता है। 37वी एजीएम की सुचना सीडीएसएल की ईयोटिंग येबसाइट https://www.evotingindia.com तथा चीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए संवीक्षक के तौर पर श्री कंवलजीत सिंह थाणेवाल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस नं. 5901 तथा सीपी नं. 5870) एससीओ 64-65, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ को नियुक्त किया है।

एजीएम में रिमोट इं-वोटिंग तथा इं-वोटिंग का परिणाम वीरवार, 30 सितंबर, 2021 को अपराहन 2.00 बने कंपनी के सर्युक्त कार्यालय एससीओ

829-830. सैक्टर 22-ए. चंडीगढ़-160022 में घोषित किया जाएगा। समेकित संबीधक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत परिणाम घोषित करने के बाद कंपनी की येवसाइट (www.paulmerchants.net) और सीडीएसएल की वेबसाइट ( https://www.evotingindia.com) पर ढाले जाएंगे और उसके साथ बीएसई लि. जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, भेजे जाएंगे। प्रस्ताय के पक्ष और विरोध में ढाले गए बीट की संख्या के साथ वोटिंग का परिणाम, अवैध वोट तथा प्रस्ताव निष्पादित किया या नहीं किया गया, कंपनी के नोटिस बोर्ड स्थित पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली और संयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। एजीएम टपरिश्वति और ई-बोटिंग प्रणाली से संबंधित किसी पूछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आकरड क्वेश्चन्स ("एफएक्व्") तथा

www.evotingindia.co.in पर हैल्प संबशन के अंतर्गत उपलब्ध ई-बोटिंग मेन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर इंमेल करें या 022-23058738, 022-23058543 या 022-23058542 से संपर्क करें। इलेक्टॉनिक विधि के माध्यम से ई-चोटिंग से संबंधित किसी समस्या की स्थित में श्री राकेश दलवी, वरि. प्रयंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल मैराधन फ्यूचरेक्स, माफतलाल मिल कंपाऊइस, एनएम जोशी मार्ग, लॉक्षर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से संपर्क करें। सदस्य श्री हरदम सिंह, कंपनी के कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी से investor.redressal@paulmerchants.net या 0172-5041760 या फैक्स नं 0172-5041713 वा पीएमएल हाटस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 पर संपर्क कर सकते हैं। कृते पॉल मर्चेट्स लिमिटेड

हस्ता./- हरदम सिंह

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, एफसीएस 5046 The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK
Ground Floor Express Green Plaza Vaishali
Your Perfect Banking Partner Sector-1 Ghaziabad U.P.-201010

Regd. Office. Alwaye, Kerala

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices will be put for sale in the branch on or after 20/09/2021 as shown below:

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Name	A/c. No.	Name	A/c. No.
Sunil	21506100004945	Ashwani Goswami	21506100005603
Pankaj Kumar Baheti	21506400000460	Sanjeev Gupta	21506100005595
Hemant Goel	21506100004150	Shalini Sharma	21506100005587
Anurag Chaudhary	21506100005454	Kavita Singh	21506100005744
Sandeep Rohilla		Amit Kumar Gupta	21506100005769
Yogendra Kumar		Ravi Kumar Srivastav	21506100005785
Yogendra Kumar	21506100005496		21506100005819
Rakesh Kr. Choudhary	21506100005504	Ravinder Kumar	21506100005850
Shamsher Malik	21506100005561	Gurmukh Malhotra	21506100006684
Place: Ghaziabad, U.P.	Date: 04.09.2021	Branch Manager,	The Federal Bank Ltd.

TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED CIN: L74899DL2000PLC105817 REGISTERED OFFICE: D-174, GF, OKHLA INDUSTRIAL AREA. PHASE - 1, NEW DELHI - 110020

**TELEPHONE NO.** 011-47351111, FAX: 011-26229671 WEBSITE: www.tigerlogistics.in , E-mail: csvishal@tigerlogistics.in PUBLIC NOTICE - 21<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform you that the 21st Annual General Meeting ("AGM") of the members of Tiger Logistics India Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 29th, 20 $^\circ$ 2 at 01.00 PM through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") ir compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of

The copy of 21st Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 along with the notice of the AGM will be available on the website of the Company www.tigerlogistics.in and on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Manner of registering/updating their E-mail ID: Shareholders who have still not registered

their e-mail ID's are requested to get their e-mail ID registered, as follows: Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in physical

mode and who have not updated their email address are requested to update their email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and selfattested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder.

Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any queries  $\rho$ difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may write to Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com

For Tiger Logistics India Limited

**Harpreet Singh Malhotra Managing Director** 

श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलायड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड CIN:L01112UP1989PLC011004

पंजी. कार्यालयः ए-26, युपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205

कार्पोरेट कार्यालयः एफ-32/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 वेबसाईटः www.shrigangindustries.com ई-मेल आईडी: secretarial@shrigangindustries.com सम्पर्क नं. 05735-222568/011-42524454

32वीं वार्षिक साधारण सभा की सचना

कोविड-19 महामारी के अनवरत प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने सर्क्युलर न 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 के साथ पठित अपने साधारण सर्क्युलर नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए सर्क्युलर्स'') के माध्यम से किर्स सामृहिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा वार्षिक आम सभा (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 [''सेबी (एलओडीआर विनियमन)''] के साथ पठित भारतीय सर्क्युलर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तिथि 12 मई, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 तिथि. 15 जनवरी. 2020. भारतीय प्रतिभति और विनियमन बोर्ड द्वारा जारी (''सेबी सर्क्युलर्स'') तथा एमसीए सर्क्युलर्स के अपुलान में कम्पनी के निदेशक मंडल ने किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 क 3.30 बजे अप. में कम्पनी की 32वीं एजीएम आयोजित करने का फैसला किया है। सेबी तथा एमसीए सर्क्यलर्स के पावधानों के अनपालन में 32वीं एजीएम की सचना तथा 31 मार्च. 2021 को समाप वित्त वर्ष के लिये कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिये लागिन विवरणों ई-मेल द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी अथव रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस (''डीपी'') के पास पहले र पंजीकृत है। एजीएम में शामिल होने के लिये सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। 32वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट (www.shrig angindustries.com) स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com)) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिट्य सर्विसेस ( इंडिया ) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाईट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध होगा

के दौरान ई-वोटिंग के लिये विस्तृत निर्देश एजीएम की सुचना में दी गई है। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं वे अपना नाम, फोलिओ नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी तथा अपने ई–मेल पते के पंजीकरण के समर्थन में आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हए secretarialashrigangindustries.lphaom पर कम्पनी के ईमेल आईडी पर अनुरोध भेजकर ई–वोटिंग सहित् वीसी/ओएवीएम सुविधा पर द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों सहित एजीएम की सुचना तथ

यह कम्पनी एजीएम की सुचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग

(एजीएम से पूर्व) तथा ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम

डिमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने डीप की परामर्श से प्रक्रिया के अनुसार केवल डीपी के पास ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सविधा द्वारा एजीएम शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों सहित एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये अपना ईमेल प पंजीकत कराऐं।

वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये सदस्यगण श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेन्ट्र डेपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां. तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनए जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से सम्पर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com प ईमेल भेजें या 022-23058543/43 पर कॉल करें या secretarial@shrigangindustries.com पर कम्पनी र अनुपालन अधिकारी को ईमेल करें। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों के सुचनार्थ तथा लाभ के लिये एवं एमसी सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश मै. श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलायड प्रॉडक्ट्स लिमिटे स्थान: नर्ड दिल्ली कनिष्का जैन

तिथि: 3.9.2021 (कम्पनी सचिव)

#### UNITED DRILLING TOOLS LIMITED CIN: L29199DL1985PLC015796

Reg. Office: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22 K G Marg, New Delhi-110001 Corporate Office: A-22, Phase-II, Noida - 201305 E-mail: compsect@udtltd.com Website: www.udtltd.com Phone: +91- 0120- 2462673, 0120-4842400 Fax: +91-0120-2462675

NOTICE OF 39TH AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of United Drilling Tools Limited ('Company') will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11.30 a.m. IST through Video Conferencing ('VC') Other Audio Video Means ('OAVM') without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circulars and SEBI Circular,

The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's website i.e. www.udtltd.com. Pursuant to the SEBI circular the requirement of sending physical copylies of the Annual Report for FY 2020-21 is dispensed. The dispatch of Notice of AGM has been completed on September 03, 2020

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as or the cut-off date of September 21, 2021 may cast their vote through remote e-Voting as well as e-Voting at AGM on the Ordinary and Special Business as set out in

The business as set forth in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means in the form of e-voting. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 25, 2021 (10.00 a.m. 1ST) and end on Monday, September 27, 2021 (05.00 p. m. 1ST). The remote e-Voting facility shall be disabled by CDSL thereafter and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Monday. September 21, 2021, only shall be entitled to vote through remote e-voting/e-Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the

Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on the cutoff date may obtain the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or maheshcp@alankit.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for The Notice of AGM is available on the Company's website www.udtltd.com an

also on Stock Exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address. 10. The results of the e-voting along with the Scrutinizers' Report shall be placed on the Company's website www.udtltd.com and the Company shall simultaneously

forward the results to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the equity shares of the Company are listed. **BOOK CLOSURE** The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain

closed from Tuesday, the 21st day of September, 2021 to Tuesday, the 28th day of

September, 2021 (both days inclusive).

Place: Noida

Date: 03.09.2021

For United Drilling Tools Limited Tarun Chhabra

Company Secretary

लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

सीआईएन : L24117RJ1979PLC002099 पंजी. कार्यालय : एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय: ए-281, प्रथम तल, विकंस कालोनी, नई दिल्ली-110024

फोन : 011-40239034/35, वेबसाइट : www.lordschloro.com,

ई-मेल : secretarial@lordschloro.com 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को पूर्वा, 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकत कार्यालय एसपी–460. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन हेतु सूचना दिनांकित 23 अगस्त, 2021 में सूचीबद्ध व्यवसाय निप्पादित किया जाएगा। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में. एजीएम के आयोजन की सूधना तथा वार्षिक रिपोर्ट समी सदस्यों को दिनांक ६२ सितम्बर, २०२१ को भेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपरिथति पर्ची तथा परोक्षी प्रपन्न सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से मेजे गए हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट(स) व पास पहले से दर्ज हैं। सदस्यों को 42वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कालर्स तथा सेबी सर्कालर द्वारा समाप्त कर दी गई है।

मीतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है तथा जो 42वीं रजीएम की सूचना तथा वर्ष 2020–21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट और ई-वॉटिंग विवरण प्राप्त करने के इच्छक हैं हमको secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे हमें हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, फोलियो नंबर, पूर्ण पता और पंजीकरण हेत् ईं–मेल पता का उल्लेख करते हुए, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता बे तमर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व—सत्यापित प्रति के साथ भेज सकते हैं । डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध करने हेत् अनुरोध पत्र कंवल अपने विपॉजिटरी पार्टिसिपैट(पार्टिसिपैटस) को भेजने का अनुरोध किय

रजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपॉट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.lordschloro.com</u> एनएसढीएल की वेबसाइ https://www.evoting.nsdl.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है जीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक प्रत्येक कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और सेवी (सुवीयन दावित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, समय समय पर संशोधित, के विनियम 44 अनुसरण में कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों से ढालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है तथा व्यवसाय का निष्पादन ई-बोटिंग सर्विसेज के मध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा एजीएम के स्थान से अलग किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट ढालने की सुविधा (रिमोट) –वोटिंग) नैशनल सिक्वोरिटीज ढिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तदधीन विरक्षित नियमों के तहत अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है : क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय रिमोट ई—वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

(a) ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 पूर्वा, 9.00 बजे।

गं) ई-वॉटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 अप. 5.00 कजे।

घ) ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की ग्राह्मता निर्धारण हेत् विच्छेदन तिथि मंगलवार, 21

 कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अजिंत कर कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को शेयरधारक है, वह यदि भीतिक रूप में शेयरधारक है तो evoting@nsdl.co.in या secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध भेजकर, अपनी क्रम संख्या प्राप्त कर सकता है और यदि शेयर डीमैट रूप में है, तो कृपया एजीएम की सूचना के "इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा बोटिंग" के रूप एजीएम की सुधना का नोट नंबर 15 देखें। ) अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार विवरण

1) सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

2) एजीएम में मतपत्र द्वारा वीट खालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं ढाला है, वे एजीएम में मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

 सदस्यगण रिमोट ई-वॉटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें पूनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी 4) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विकोदन तिथि अर्थात मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को सदस्यों की पंजिका में

अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका में सुचीबद्ध होगा, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसबीएल की वेबसाइट

https://www.evoting.nsdl.com तथा बीएसई लिमिटेंड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, सदस्यगण एजीएम की सुधना में दिए गए अनुदेश देखें और यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यूज') तथा ई-वोटिंग मैनुअल देखें।

) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा बोटिंग हेतु सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें सुन्नी सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, बतुर्ध तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोअर परेल, मुंबई-400013 को संबोधित करें अथवा evoting@nsdl.co.in को ई-मेल करें अथवा 1800 102 0990 / 1800 224 430 पर कॉल करें ।

तदुद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अधीन यह भी सचना दी जाती है कि सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिन सहित) एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद वास्ते लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

आईओ सिस्टम लिमिटेड

सीआईएन : L65921UP1987PLC008764

पंजीकृत कार्यालय : ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए तथा 19बी, सेक्टर-125,

नोएडा-201301 (उ.प्र.), **दूरभाष**: +91-120-3355131

वेबसाइट : www.iosystem.in, ई-मेल : iosystemltd@gmail.com

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम आयोजित करने की सुचना में निर्धारित के अनुसार व्यवसाय

के लेन-देन हेतु आईओ सिस्टम लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'')

रविवार, 26 सितंबर, 2021 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य

ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए और

सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सचना कंपनी की वित्तीय वर्ष 2020–21

की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पर ई-मेल द्वारा भेज दी

गई है। कंपनी ने 3 सितंबर, 2021 को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने की सुचना

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने

ई-मेल पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में)

या मास सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 33वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक

रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.iosystem.in) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट

सदस्यों को यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम. 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108

के अनुसार, समय-समय पर संशोधित संबंधित नियमों के साथ-साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता दायित्व

और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम'') और उपरोक्त

परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और एजीएम के

दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे 33वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों को आगे सुचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा

के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि रविवार, 19 सितंबर, 2021 निर्धारित

की गई है। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपाजिटरी द्वारा रखे

गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम

सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार, 23

माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान

अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान फिर

प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया /

लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है या सदस्य www.evoting.nsdl.com पर

डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत को श्री दिनकर शर्मा, कंपनी सचिव, ई-मेल पते:

iosystemltd@gmail.com, संपर्क नंबरः 9810157189 पर संबोधित किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल के माध्यम से सचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बन

जाता है. लेकिन कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है वह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम

में भाग ले सकता है। ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से

अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपने संबंधित विवरण यानी डीपी आईडी

iosystemltd@gmail.com को मार्क करते हुए ई-मेल के माध्यम से आरटीए के पास

investor@masserv.com पर निवेदन करके वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम आयोजित करने की

सूचना की प्रति तथा ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक है और डीमैट मोड में शेयर रखता है तो वह ई-वोटिंग निर्देश में बताए

चूंकि 33वीं एजीएम पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की

जाएगी, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनसार, सदस्यों द्वारा

एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीबद्धता विनियमों के

और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर के साथ एक प्रति कम्पनी

स्थान : नई दिल्ली

भेजने का काम परा कर लिया है।

रूप में धारित शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकत कराएं।

के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगा।

से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

अनसार पासवर्ड जेनरेट कर सकता है।

(दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

तिथि : 3 सितम्बर, 2021

स्थान : नोएडा

प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

निर्देश 33 वीं एजीएम बुलाने की सुचना में निहित हैं।

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

हस्ता. / -अजय विरमानी प्रबंध निदेशक तिथि : 4 सितम्बर, 2021

In The Court Of Ms. Divva Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank

Criminal Courts, Ludhiana

Jahid Ali CNR NO: PBLD03-002264-2019 Next date: 08-10-2021 Publication Issued To: Jahid Ali Address- R/o 79 Sisaleeya Kuvarpur

Sitargani Udham Singh Nagar Nainital

Whereas it has proved to the satisafction of this court that you, the above named accused/ coused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82. of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of sublication of this proclamation. Take notice that, case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs =district notice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

## Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

CNR NO: PBLD03-002254-2019 Next date: 08-10-2021 Kotak Mahindra Bank Har Swaroop Singh Notice To: Har Swaroop Singh

Address - R/o H. No. 208, Mainather Bilari, Moradabad (UP) whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused: accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82. of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should pear personally before this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, n case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs =district notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

### Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

Next date: 08-10-2021 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

CNR NO: PBLD03-001850-2019 Kotak Mahindra Bank Virendera Singh

Notice To: 1. Virendera Singh S/o Not Known R/o House No. 191, Dabara, P.S. Dabri, Gautam Budh Nagar, Noida-203207 2. Sunita Virendera W/o Not Known R/o House No. 186, Dabra, Tehsill Dadri, Gautam Budh Nagar, Noida-203207 whereas it has proved to the satisfaction of this court that you the above named accused/accused rsons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally sefore this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default. on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence for details logon to:

## Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya

Sharma JMIC Ludhiana

e&district=ludhiana

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_notic

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-001857-2019

Next date: 08-10-2021 Kotak Mahindra Bank Sunder Singh

Notice To: sunder singh s/o kunwar r/o

Sain Khabri Bhola, P.O., Ghumsani khabri, bhola, pakwara sambhal, near primary school, sambh, U.P. 244102 hereas it has proved to the satisfaction of this ourt that you, the above named accused/accused ersons can't be served in the ordinary way of ervice. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally efore this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or ithin 30 days from the date of publication of this reclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law n your absence, for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_notice

### Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments

kdistrict=ludhiana

as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Harinath Saligram

सितंबर. 2021 को सबह 9:00 बजे शुरू होगी और शनिवार, 25 सितंबर, 2021 को शाम CNR NO: PBLD03-002266-2019 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को Next date: 08-10-2021 निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, Publication Issued To: Harinath उसे बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के Saligram Address- R/o House No. 0

Nagla Pan Sahay Tundla Nagla, अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा Firozabad Mathura (UP) Whereas it has proved to the satisafction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary कंपनी ने श्री अमित जैन (सदस्यता संख्या और सीपी संख्या 509349), चार्टर्ड एकाउंटेंट को ई-वोटिंग way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of सदस्यों को एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर वोट डालने के ublication of this proclamation. Take notice that, n case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for Shareholders और e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in ≈district notice&district=Ludhiana

#### Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya

Sharma JMIC Ludhiana Next date: 08-10-2021

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-001851-2019 Kotak Mahindra Bank

Wagar Ahmed Shamsi Notice To: Wagar Ahmed Shami S/o Not Known R/o Phatak Salamat Ali Khan, Near Moti Maszid, Jail Road, Rampur-244901 whereas it has proved to the satisfaction of this

court that you, the above named accused/ विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, 33वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 कंपनी की शेयर अन्तरण पस्तिकाएँ सोमवार, 20 सितंबर, 2021 से रविवार, 26 सितंबर, 2021 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 8-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते आईओ सिस्टम लिमिटेड

अरुण सेठ निदेशक

for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/? trs=district notice&district=iudhiana

डीआईएन : 00007895

## www.readwhere.com

तिथि: 04 सितंबर, 2021

स्थानः चंडीगढ